

# शिशुओं के वॉकर और व्यायाम के लिए जंपर

शिशुओं के वॉकर और व्यायाम जंपर खतरनाक होते हैं और इनका प्रयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है।

इन उपकरणों के प्रयोग से गंभीर शारीरिक क्षति या विकासात्मक विलंब हो सकता है।



बेहतर, अधिक सुरक्षित विकल्पों में शामिल हैं:

- ★ फर्श पर समय बिताना
- ★ शिशुओं के झूले और रॉकर कुर्सी
- ★ गतिविधियों के लिए मेज
- ★ धकेलने वाली ट्रॉली।

और अधिक जानकारी के लिए, कृपया

वेबसाइट [kidsafesa.com.au](http://kidsafesa.com.au) पर जाएँ।

(08) 8161 6318

[enquiries@kidsafesa.com.au](mailto:enquiries@kidsafesa.com.au)

[f](#) [@](#) [v](#) YouTube

  
Child Accident Prevention Foundation of Australia

  
Government  
of South Australia  
SA Health